



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 श्रावण 1932 (श0)
(सं0 पटना 504) पटना, शुक्रवार, 23 जुलाई 2010

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना
11 फरवरी 2010

सं0 12/प्र0-1002/09 का0-1410—बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी, श्री परशुराम राम, कोटि क्रमांक-452/04 को अनुमंडल पदाधिकारी/समकक्ष स्तर के वेतनमान् रु0 10,000-15,200 (अपुनरीक्षित) में दिनांक 03 अप्रील 2006 से दी गयी प्रोन्नति को उनसे कनीय पदाधिकारी को दी गयी प्रोन्नति की तिथि 01 जनवरी 1996 से उन्हें भी अनुमंडल पदाधिकारी/समकक्ष स्तर के पद पर वैचारिक प्रोन्नति दी जाती है।

2. श्री राम को उनसे कनीय पदाधिकारी को अपर समाहर्ता/समकक्ष स्तर के वेतनमान् रु0 12,000-16,500 (अपुनरीक्षित) में दिनांक 01 दिसम्बर 2004 से दी गयी प्रोन्नति की तिथि से उन्हें भी अपर समाहर्ता/समकक्ष पद पर वैचारिक प्रोन्नति तथा उनसे कनीय पदाधिकारी द्वारा पदभार ग्रहण करने की तिथि 07 फरवरी 2008 से उन्हें भी आर्थिक लाभ के साथ अपर समाहर्ता/समकक्ष पद पर प्रोन्नति दी जाती है। इसमें वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अतुल कुमार सिन्हा,
सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 504-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>